



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30—दिसम्बर 6, 2013 (अग्रहायण 9, 1935)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30—DECEMBER 6, 2013 (AGRAHAYANA 9, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	685	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1011	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1229	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 943
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 3903
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1173
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	685	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1011	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1229	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	943
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3903
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1173
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

संकल्प

विषय : इस्पात उपभोक्ता परिषद् गठन के संबंध में।

सं. 5(2)/2011 एसडी-1--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 14.03.2011, 07.09.2011, 25.11.2011, 10.12.2012, 15.04.2013, 30.05.2013, 16.07.2013, 04.09.2013, 05.09.2013, 11.09.2013, 16.09.2013 और 17.09.2013 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। इसके तहत इस मंत्रालय के पूर्व कथित संकल्प के पैरा-3 के अंतर्गत उनके नामों का उल्लेख किया गया है :-

उत्तर प्रदेश

श्री चेत राम,
पूर्व विधायक
45, पुवार्यो,
जिला-शाहजहांपुर,
उत्तर प्रदेश।

श्री मिर्जा आसिफ बेग,
सुपुत्र स्व. श्री हाजी मिर्जा बेग,
पुरानी बाजार,
नानपारा, बहराइच,
उत्तर प्रदेश।

श्री ऊदल सिंह पटेल,
सुपुत्र स्व. श्री रामदास पटेल
ग्राम व पोस्ट-मसौरा खुर्द,
जिला-ललितपुर,
उत्तर प्रदेश।

2. यह परिषद् अध्यक्ष के इस्पात मंत्री के रूप में रहने तक कार्य करेगी। एससीसी का प्रारम्भिक कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों तक होगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा यह कार्यकाल विशेष रूप से घटायी अथवा बढ़ाया नहीं जाता है। एससीसी जब भी आवश्यकता हो, अपनी बैठकें करेगा।

आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

सय्यदैन अब्बासी
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

सं. एफ-10-3/2013-यू.3(ए)--जबकि केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन शक्ति प्राप्त है कि यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करे।

2. और जबकि, यूजीसी की सलाह पर, इस मंत्रालय की दिनांक 10 मई, 1989 की अधिसूचना सं. एफ-9-18/85-यू.3 के द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को एक 'सम-विश्वविद्यालय संस्था' के रूप में घोषित किया गया था।

3. और आगे जबकि, इस सम-विश्वविद्यालय संस्था ने "जामिया हमदर्द, नई दिल्ली" की परिधि के अंतर्गत दीनूल इस्लाम सभा एजुकेशनल, कॉम्प्लैक्स, दीनूल इस्लाम सभा बिल्डिंग, पीओ-कन्नूर सिटी, केरल में एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2013 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

4. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के अपने पत्र संख्या एफ.19-2/2013(सीपीपी-1/डीयू) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की है कि जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 के अधीन यथा निर्धारित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत छः वर्षों के लिए द्विवार्षिक और बाद में पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्वधीन केरल में एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र आरम्भ करने की अनुमति दी जाए।

5. अब इसलिए, केन्द्रीय सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर एतद्वारा घोषण करती है कि जामिया हमदर्द, कन्नूर, केरल, शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संचालन के लिए पूर्वोक्त अधिनियम और इसके साथ संबद्ध शर्तों के उद्देश्यार्थ यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 के अधीन यथा निर्धारित सामान्य निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत छः वर्षों के लिए द्विवार्षिक और बाद में पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्याधीन पूर्वोक्त जामिया हमदर्द, सम-विश्वविद्यालय संस्था, नई दिल्ली की परिधि के अधीन एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र के रूप में एक अनुषंगी शिक्षण एकक होगा।

6. ऊपर पैरा 5 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम सं. 3 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन भी है।

आर. पी. सिसोदिया
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

संकल्प

सं. 33-1/2006-सीडीएन--इस मंत्रालय के तारीख 06.05.2013 और 30.07.2013 के समसंख्यक संकल्प इसमें संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से विचारों और अभिरुचियों के विविध सूक्ष्म भेदों के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लेने के सहभागी प्रक्रिया विकसित करने के लिए केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड गठित किया गया था के अनुक्रम में, सरकार ने 15 गैर-सरकारी सदस्यों के अलावा केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को और नामित किया है :--

1. श्री करण सुरेन्द्र प्रताप सिंह
604/ए-1, अकाल सीएचएस, जे. बी. नगर, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई-400059
ई-मेल : karans83@yahoo.co.in, mic2macro@gmail.com
दूरभाष : 9870119611, 9870000678

2. श्री संजीव सुरोलिया
ए-131, नेहरू नगर, पानी पेच,
जयपुर-302016
दूरभाष : 93149-65501
ई-मेल : sanjeev.suroolia@gmail.com
3. श्री विनय दत्तात्रेय राणे
ए-305, ट्विन टॉवर, राजमाता जीजाबाई रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई-400093
दूरभाष : 9172955555, 022-6515 5555
ई-मेल : vinay.rane@rediffmail.com
4. सुश्री रिया दिवाकर गांधी
बी-19, ग्रेटर कैलाश एनक्लेव पार्ट-I
नई दिल्ली-48
टेलीफोन : 011-41634150, 65424800, 26242639
(मो.) 9873005244 (का.) 011-41071145

सदस्यों के नामांकन हेतु निबंधन और शर्तें तारीख 06.05.2013 के संकल्प के अनुरूप होंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति इस कार्यालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/संस्कृति मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त संगठनों को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

अरविंद मंजीत सिंह
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 22nd October 2013

RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumers' Council—regarding.

No. 5(2)/2011-SD-I—In continuation of Ministry of Steel Resolution of even number dated 14.03.2011, 07.09.2011, 25.11.2011, 10.12.2012, 15.04.2013, 30.05.2013, 16.07.2013, 04.09.2013, 05.09.2013, 11.09.2013, 16.09.2013 and 17.09.2013 the following persons are hereby nominated as Non-Official Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel to represent the States/UTs under which their names have been mentioned, under Para 3 of this Ministry's aforesaid Resolution :—

UTTAR PRADESH

Shri Chet Ram, Ex-MLA,
45, Powayan,
Distt. Shahjahanpur,
Uttar Pradesh

Shri Mirza Asif Baig,
Purana Bazar,
Nanpara, Behraich,
Uttar Pradesh

Shri Udal Singh Patel,
Gram & Post Masoura Khurd,
Distt. Lalitpur,
Uttar Pradesh

2. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Notification unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Ministers's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

SYEDAIN ABBASI
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 18th October 2013

No. F-10-3/2013-U.3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a Deemed-to-be-University.

2. And whereas, on the advice of the UGC, Jamia Hamdard, New Delhi was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's Notification No. F.9-18/85-U.3 dated 10th May, 1989.

3. And further whereas, the Institution "Deemed-to-be-University" has submitted a proposal in the year 2013 seeking permission for establishment of an off-campus centre at Deenul Islam Sabha Educational Complex, Deenul Islam Sabha Building, P.O. Kannur City, Kerala under the ambit of "Jamia Hamdard, New Delhi".

4. And whereas, the UGC vide its communication bearing F. No. 19-2/2013(CPP-I/DU) dated 4th October, 2013 has recommended to the Ministry of Human Resource Development to allow Jamia Hamdard, New Delhi to start an off-campus centre at Kerala subject to biennial review for six years and subsequently after five years, subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC, Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC) do hereby declare that Jamia Hamdard, Kannur, Kerala shall be a constituent teaching unit under the ambit of Jamia Hamdard, Institution Deemed-to-be-University, New Delhi, as an *off-campus* centre for the purposes of the aforesaid Act for conduct of Academic Course/Programmes and the conditions attached thereto, subject to biennial review for six years and subsequently after five years, subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.

6. The declaration as made in Para 5 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No. 3 of the endorsement to this notification.

R. P. SISODIA
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 25th October 2013

RESOLUTION

No. 33-1/2006-CDN—In continuation to the Ministry's Resolution of even number dated 06.05.2013 & 30.07.2013 constituting therein a Central Advisory Board on Culture to evolve a participative process of decision-making by taking an integrated view of the various shades of ideas and interests from different domains of Culture, Government hereby further nominate the following persons as members

to the Central Advisory Board on Culture in addition to 15 Non-Official Members :—

1. Sh. Karan Surendrapratap Singh
604/A-1, Akal C.H.S, J. B. Nagar, Andheri (E),
Mumbai -400 059
e-mail: karans83@yahoo.co.in,
mic2macro@gmail.com
Tel: 9870119611, 9870000678
2. Sh. Sanjeev Surolia
A-131, Nehru Nagar, Pani Pech,
Jaipur- 302016
Tel: 93149-65501
Mail: sanjeev.surolia@gmail.com
3. Sh. Vinay Dattatraya Rane
A-305, Twin Tower, Rajmata Jijabai Road,
Andheri (E),
Mumbai-400 093
Tel: 9172955555, 022- 6515 5555
e-mail: vinay.rane@rediffmail.com

4. Ms. Riya Diwakar Gandhi
B-19, Greater Kailash Enclave Part-I
New Delhi-48
Tel : 011- 41634150, 65424800, 26242639
(M) 9873005244 (O) 011-41071145

Terms and conditions for the nomination of the members will be as per the resolution dated 06.05.2013.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to this office and to all Ministries/Department of Government of India, all State Governments/Union Territories Administration. All Attached/Subordinate Offices & Autonomous Organizations of Ministry of Culture for information.

ARVIND MANJIT SINGH
Jt. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
www.dop.nic.in